



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 1977/अषाढ 27, 1899
No. 244] NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 1977/ASADHA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

ORDERS

New Delhi, the 18th July, 1977

G.S.R. 529(E).—In exercise of the power conferred by section 3, read with section 16, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. G.S.R. 491(E) dated the 12th September, 1975.

In the said order, for the words, figures and letter, "In the said Order, after clause 12 F, the following clause shall be inserted, namely:—" the following shall be substituted namely —

"1. This order may be called the Colliery Control (Amendment) Order, 1975.

2. In the Colliery Control Order, 1945, after clause 12 F, the following clause shall be inserted namely :—"

[No. C4-18(11)/72-DT]

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 529 (अ).—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत

(1527)

सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के आदेश संख्या सा० का० नि० 491 (अ), तारीख 12 सितम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त आदेश में, “उक्त आदेश में, खण्ड 12 च के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् —” शब्दों, अंक और अक्षर के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा —

“1. इस आदेश का नाम कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1975 है।

2. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 में, खण्ड 12 च के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा अर्थात् :—”

[सं० सी 4-18 (11)/72-सी० डी० टी०]

G.S.R. 530(E).—In exercise of the power conferred by section 3, read with section 10 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Colliery Control Order 1945, namely:—

1. (1) This Order may be called the Colliery Control (Amendment) Order, 1977.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

2. In the Colliery Control Order, 1945, in clause 12 G,—

(a) the first proviso shall be omitted;

(b) in the second proviso, for the words “Provided further that”, the words “Provided that” shall be substituted.

[No. C4-18(11)/72-CDT]

R. P. KHOSLA, Jt. Secy.

सा० का० नि० 530 (अ).—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1 (1) इस आदेश का नाम कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1977 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 में खण्ड 12 छ में,—

(क) प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) द्वितीय परन्तुक में “परन्तु यह और कि” शब्दों के स्थान पर “परन्तु” शब्द रखे जाएंगे।

[सं० सी 4-18 (11)/72-सी० डी० टी०]

राजेन्द्र पाल खोसला, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977